

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ़ 6, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. एफ 10-2-2014-एक-4-संशोधन.—सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जून 2015 द्वारा कु. पायल सेनानी पिता श्री सुभाष सेनानी, भीकनगांव, जिला खरगोन को उनके द्वारा प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिये “महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार” एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने का असाधारण राजपत्र में प्रकाशन किया गया है. अधिसूचना के पैरा-2 में वर्ष 2015 के स्थान पर वर्ष 2012 पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.